



Akasa's ULCC model faces a big challenge

The high cost structure in India could erode its competitive advantage

rhik.k@livemint.com

NEW DELHI

illionaire Rakesh Jhunjhunwala is looking to carve out a place for his upcoming airline venture, Akasa, an ultra-lowcost carrier (ULCC), in India's highly competitive aviation market.

It's a model that has worked well in Europe and the US. But the inherent highcost structure for operating airlines in India could erode any competitive advantage Jhunjhunwala may hope to achieve.

As things stand, the promoters are awaiting a no-objection certificate (NOC) from the ministry of civil aviation.

ULCCs like RyanAir and Spirit Airlines represent a distinct business model, which is different from the low-cost carrier (LCC) model followed by IndiGo.

For instance, ULCCs often opt for unbundling of fares, making tickets cheaper than those of LCCs. Any extras such as baggage, selecting one's seat or food are subject to a charge. These airlines also typically have cheaper operating costs as they operate out of secondary airports and have lower distribution costs.

The ULCC model not only depends on lower ticket prices but also lower structural costs. On these, an ULCC in India cannot gain advantages. Other than secondary airports, what is often overlooked is the cost of funds, distribution costs and

demand dynamics. For the ULCC model to succeed, any new airline will have to get this right," said Satyendra Pandey, managing partner at aviation advisory AT-TV.

"Post covid, there has also been a shift in consumer behaviour when it comes to

air travel, pricing and purchase of tickets. Overall, a new airline will certainly help with competition. But it could also mean that in a race to discount and match fares, existing players may be further weakened," Pandey added.

For any airline to succeed in India, one has to be either exceptionally good with services or exceptionally cheap. While the ULCC model focuses on the latter, the jury

BHARTI AIRTEL LIMITED

CIN: L74899HR1995PLC095967 Regd. Office: Airtel Center, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase - IV,

Gurugram -122015

Corp. Office: Bharti Crescent 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,

Phase II, New Delhi 110070 Tel: +91 124 4222222; Fax: +91 124 4248063

Email id: compliance.officer@bharti.in, Website: www.airtel.com

INFORMATION REGARDING 26th ANNUAL GENERAL

MEETING OF BHARTI AIRTEL LIMITED

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April

13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General

Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11dated January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 26th

Annual General Meeting ('AGM') of Bharti Airtel Limited ('Company') will

be held through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means

('OAVM') on Tuesday, August 31, 2021 at 3:00 pm (IST) to transact the

and Integrated Report & Annual Financial Statements 2020-2021

("Annual Report") will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail ids are registered with the Company/ Depository

Participants (DPs). The Notice and Annual Report will also be available

on the website of the Company at www.airtel.com, on the website

of KFin Technologies Private Limited, Company's RTA, at

https://evoting.kfintech.com/ and on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at

www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Further, members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice

businesses that will be set forth in the Notice of AGM ('Notice')

bhartí



Billionaire Rakesh Jhunjhunwala, one of the co-founders of Akasa, is banking on the ultra-low-cost carrier model, which has worked well in Europe and the US.

is still out on whether a ULCC model can work in India

In India, most airlines follow similar networks, pricing and aircraft types, which makes differentiating between their services difficult. The high costs of operating an airline in a highly competitive market also means that margins for most players are well below their cost of

With price being a key differentiator

to bring in operational efficiency. Also, the fight for customers' wallet share is going to be more pronounced in the next 12-18 months among the airlines and hence much of the success will depend on the operational efficiency of the airline," Pad-

> manabhan added. The airline venture will also see the return of former IndiGo president Aditya Ghosh, who along with Jhunjhunwala and

> former Jet Airways chief executive officer Vinay Dube, are reported to

be the co-founders of Akasa. Ghosh was once the face of IndiGo, which is currently the largest domestic airline in the country with a market share of close to 55%

However, Ghosh will face immense challenges to kick start the airline as the economy recovers

from the covid-19 pandemic and amid intense competition from IndiGo, Spice-Jet. Vistara and others.

According to estimates by aviation consultancy Capa India, Indian airlines are likely to suffer a consolidated loss of about \$4.1 billion during financial year 2022 similar to the losses in FY21, due to the covid-19 pandemic.

Tour companies offer deals, discounts to woo customers

saumya.t@livemint.com NEW DELHI

our operators are devising new business plans to woo customers with a variety of offers on holiday packages following the easing of travel curbs and several European countries allowing the entry of fully vaccinated Indian tourists and travellers.

Online travel agent Yatra, for instance, is offering a 10% discount on domestic air travel and 5% for international destinations, besides 55%, or up to ₹5,000 off on hotels, with free room and meal upgrades.

It is also offering a flat 6% off on bus services. For holiday packages, the discounts can go up to as high as 60%.

Sabina Chopra, co-founder and chief operating officer, corporate travel, and head, industry relations, Yatra.com, said tour operators and OTAs (online travel agencies) are offering a wide range of offers to increase domestic tourism demand and improve consumer confidence.

"With increasing desire to travel and limited reopening of international borders, India presents a vast opportunity for domestic travel. There are numerous locations and experiences waiting to be explored, and by offering special dis-



Many firms are offering discounts on air tickets.

counts, we are engaging with and encouraging consumers to go out and travel," she said.

Meanwhile, Booking.com is launching 36-hour bi-weekly flash promotion deals to help travellers save 30% on properties across India and around the world. The first promotion will go live in India from 1:30am on 13 August to 1:30pm on 15 August.

"With a booking window valid for stays with a checkout date until 13 August 2022, travellers can feel secure knowing that Booking.com offers important features like free cancellation (policies vary across properties) and information on cleanliness standards, so they can travel stress free and safely, as and when travel restrictions continue to lift across India and globally,' the company said.

The platform is also offering getaway deals for stays, lastminute and early-booker deals and special discounted rates on Booking.com's app.

MakeMyTrip announced a sale on flights, hotels, cabs and holidays, wherein customers can win packages every day till 16 August. "While travel has resumed for a lot of people, the rewarding deals and offers nudge not just the fence-sitters but proactively help persuade those who are often searching but are yet to book their travel," said Sunil Suresh, chief marketing officer, Make-MyTrip and Goibibo.

Thomas Cook India, and its group company SOTC Travel. too, had launched the India Holiday Festival between 28 July and 6 August, with bookings across its omni-channel network of retail outlets, websites, virtual stores and apps. Up to 50% discounts are available for family holidays in Goa, Himachal, Kashmir, the Andamans and Ladakh. Honeymoon packages are being offered at a 20% discount.

"Indians are quintessentially deal-seekers... we have already seen a 500% surge in July versus June," said Rajeev Kale, president and country head, holidays, MICE, Visa, Thomas Cook (India).

RS approves amendment to AERA Act

Rhik Kundu rhik.k@livemint.com

NEW DELHI

he Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill 2021 was approved by the Rajya Sabha on Wednesday amid protests by Opposition parties over the Pegasus snooping issue. This will now pave the way for the bill to become a law. It was cleared by the Lok Sabha last Thursday and will now need President Ram Nath Kovind's assent.

The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill 2021, which proposed to amend the definition of 'major airport' under the Airports Economic Regulatory Authority Act, 2008 (AERA Act), was tabled by civil aviation minister Jyotiraditya Scindia on the floor of the House.

"The bill intends to aid gov ernment's plan for privatization of smaller airports as part of its asset monetization programme announced during the budget for 2021-22. The bill also promises to help faster develop the smaller airports and expedite the UDAN scheme by expanding the air connectivity to relatively remote areas," said Poonam Verma, partner, J. Sagar Associ-

COMPETITIVE EDGE

ULCCs often opt for unbundling of fares, cheaper than those

ANY extras such as baggage, selecting one's seat or food are subject to a charge in the ULCC model

THEY also typically have cheaper operating costs as they operate out of

for a ULCC, it (Akasa) has to make a judicious choice between plying metro and non-metro routes, as a ULCC will have limited flexibility in pricing in the ultracompetitive major routes," said Jagannarayan Padmanabhan, director and practice leader of transport and logistics, at Crisil Ltd.

"On the flip side, non-major routes may not be able to give the necessary volumes

COMPANY LIMITED

Regd Office: 1"Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Email: camaccommercial@gmail.com, Phone No.: 7303495374,

CAMAC COMMERCIAL

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, August 13, 2021, inter-alia, to nsider and approve and take on record the audited financial results of the Company for the first quarter ended June 30, 2021. The above information is also available on the websit

of the Company www.camaccommercial.com and sent to the Calcutta Stock Exchange Ltd. By Order of the Board

(Director Date: 04/08/2021

RELIABLE VENTURES

Regd. Off: "Reliable House", A-6, Koh-e-fiza Indore Road, Bhopal - 462001 (M.P.) **COMPANY NOTICE**

In terms of the Reg.47 of SEBI (LODR Regulation 2015 Notice is hereb given that the Board of Directors of the Company shall meet on Friday, th 13th Day of August, 2021 at 4.30 P.M. to consider, inter-alia, and approv financial results of the company for the 1st quarter ended 30th, June, 2021. The Notice is also available of 'Noorussabahpalace.com' and BSE website www.bseindia.com

For Reliable Ventures India Limited Place: Bhopal Date: 31/07/2021 Director

CIN: L22121DL2002PLC117874

Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India

Tel: +91 11 66561608 Fax: +91 11 66561445 Fmail: cornoratedept@hindustantimes.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2021

(INR in Lakhs except earnings per share data Year ended March 31 2021 June 30. 2021* 2020 & Revised Net profit/(loss) for the period (before tax and/or exceptional items) (9,039 (6,704) (5.139) (7,084 of joint venture (after exceptional items) 1,534 (6,630 (5,232 (6,661 period after tax, non-controlling interest and share in loss of joint venture and other 4.65 4.655 Paid-up equity share capital*** (Face Value - INR 2/- per share) Other equity excluding revaluation reserves as per the audited balance sheet 2,04,318 not nualised (2.23) (2.23) not nualised (2.91) Earnings/(Loss) per share (of INR 2/- each)

Refer Note 6 of Quarterly Consolidated Financial Results filed with Stock Exchanges for the quarter ended June 30, 2021

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available of the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.htmedia.in).

The above consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 4, 2021. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of the above results pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and have issued an unmodified review opinion.

The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time Additional information on standalone financial results is as follows: (INR in Lakhs

Quarter ended Year ended June 30, 2020 June 30, 2021 March 31, 2021 March 31, 2021 Revenue from Operations 11,40 52,810 Profit/(Loss) Before Tax (5,438)2,87 (7,167)(13,544)Profit/(Loss) After Tax (3,880)3,118 (4,779)(8,135)Total Comprehensive Income/ (Loss) (3,815) 3,121

Refer Note 9 of Quarterly Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 The figures of the quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of the previous financia year and the year to date figures upto December 31, 2020, being the end of the third quarter of the previous financial year, which wer subjected to limited review For and on behalf of the Board of Director

Chairperson & Editorial Director Date: August 4, 2021



New Okhla Industrial Development Authority

Administrative Building, Sector-6, Noida - 201301 (U.P.) Website: www.noidaauthorityonline.com

Request for Proposal for Empanelment of Agencies for Carrying Out **Dog Sterilization and Immunization of Stray Dogs in NOIDA** NOIDA thus invites "Request for Proposal" from the private, public or government owned legal entity

registered in India interested to showcase their interest in carrying out dog sterilization and immunization of stray dogs in NOIDA. The broad activities include but not limited to picking up of the stray dogs, keeping stray dogs in shelters/kennels, surgical sterilization, post-operative care and anti-rabies immunization, and release of dogs to the same place from the picking spot & keeping. The interested entities/ agencies/ firms /companies may then send their organizational profile along with the approach and methodology of carrying out the operations with the forms available in the RFP document uploaded on the NOIDA website on or before 09 August 2021 before 5:00 PM, on the following email addresses:

Email address: pehealth39@gmail.com; Website: www.noidaauthorityonline.com

The RFP document will be available on NOIDA's website www.noidaauthorityonline.in

1. The applicants may submit your responses in sealed envelopes and also on the e-mails as mentioned above in prescribed format to the undersigned latest by: 09/08/2021

2. Queries if any may be referred in writing to the Senior Project Engineer, at the above mentioned address or email at pehealth39@gmail.com

3. Critical Dates

	Publishing Date	
	Old Date	Revised Date
Publishing Dates	22.07.2021	22.07.2021
RFP Submission Start Date	22.07.2021	22.07.2021
RFP Submission End Date	04.08.2021	09.08.2021
RFP Opening Date	05.08.2021	10.08.2021

4. Bid processing fee = Rs. 2500.00+18% GST=2950.00

5. Earnest Money = 1,00,000.00

Senior Project Engineer (PH) Public Health Department, NOIDA Sector-39, Gautam Buddha Nagar

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the Notice. Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the notice i.e. either by registering through the link - https://ris.kfintech.com/clientservices/ mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to KFin Technologies Private Limited, Company's RTA, at einward.ris@kfintech.com along with

- scanned copy of signed request letter mentioning their name and
- scanned copy of the share certificate (front and back); self-attested scanned copy of PAN card; and

the following documents:

Place : New Delhi

Date : August 05, 2021

self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar card, Driving License, Passport) in support of their address.

Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their e-mail addresses with their relevant DPs. For the limited purpose of receiving the Notice and Annual Report for the financial year 2020-2021, they may also temporarily register their e-mail addresses by following the procedure specified in the Notice i.e. by

registering through the link https://ris.kfintech.com/clientservices/ mobilereg/mobileemailreg.aspx. The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through

remote e-voting/ e-voting at the AGM shall be provided in the Notice. This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars For Bharti Airtel Limited

Pankaj Tewari Company Secretary

HCL TECHNOLOGIES LIMITED Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369 pistered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019

Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida - 201304, UP, India Telephone: +91 11 26436336 Website: www.hcltech.com; E-mail ID: investors@hcl.com

29[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('AGM') of the members o

HCL Technologies Limited (the "Company") will be held on Friday, 27th day of August, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through VC/OAVM to transact businesses, as set forth in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its

General Circular dated January 13, 2021 read with circulars dated May 5, 2020, April 8 2020 and April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as the "MCA Circulars"), have permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act. 2013 ("Act") and the Rules made thereunder, and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of he members of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the above MCA Circulars and circular dated January 15, 2021 read with circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Notice of the AGM of the Company along with the Annual Report (2020-21) s being sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report (2020-21) will also be made available on the website of the Company, <u>www.hcltech.com</u> , websites of the Stock Exchanges, namely, National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited, the agency for providing e-voting (including remote e-voting) facility, www.evoting.nsdl.com.

Manner to cast vote(s) through remote e-voting / e-voting at the AGM a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set forth

in the Notice of the AGM through e-voting (including remote e-voting). The manner of e-voting (including remote e-voting) by members holding shares in dematerialized / physical form shall be provided in the Notice of the AGM. The facility of e-voting will also be made available at the AGM and members

attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote(s) on the resolutions during the remote e-voting period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The log-in credentials to cast the vote(s) through e-voting (including remote e-voting) shall be made available to the members through e-mail. Members who do not receive the e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Company

Depository Participant(s) may generate their log-in credentials by following the instructions given below. Manner of registration / updating e-mail addresses

Members who have not registered their e-mail addresses with the Company or their Depository Participant(s) are requested to register the same temporarily for the purpose of receiving the Notice of the AGM and Annual Report (2020-21) by clicking the following link: $\underline{\text{https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email}} \ \ \underline{\text{Register.html}} \ \ \text{and}$

complete the registration process as guided therein For permanent registration of e-mail addresses, members are requested to follow the

	·
1.	Visit the link:
	https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html
2.	Select the company name viz. HCL Technologies Limited.
3.	Mention Folio No., Name of the Shareholder, Certificate No.,
	PAN, Mobile Number, E-mail-ID along with a self-attested
	copy of your PAN Card/Aadhar/ Valid Passport etc.
	2.

The members holding shares in electronic mode are requested to For shares register / update their e-mail addresses, PAN and Bank Account Dematerialized details with the Depository Participant where their respective demat accounts are maintained n case of any queries in regard to the registration process of e-mail addresses, members

may contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at rnt.helpdesk@linkintime.co.in For HCL Technologies Limited Manish Anand Place: Noida (U.P.)

Company Secretary



नोएडा के सरकारी अस्पतालों में बच्चों के सिर्फ 2 डॉक्टर

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 360 बेड तैयार, मगर चिकित्सकों का अभाव

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

औद्योगिक राजधानी और हाईटेक जिले गौतमबुद्ध नगर प्रशासन का दावा है कि वह कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में सक्षम है, जबकि स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों और अस्पतालों की भारी कमी से जुझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जिला प्रशासन के दावे हवा-हवाई साबित हो सकते हैं। जनपद में पीडियाट्रिक समेत तमाम विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है, जबकि तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। राज्य सरकार इससे बचाव के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। राजधानी लखनऊ समेत सभी जिला प्रशासन को एलर्ट पर रखा गया है।

गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहा है, मगर चिकित्सकों की संख्या इतनी कम है कि सारे किए.कराए पर पानी फिर सकता है। इसलिए प्रशिक्षण देकर चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा रहा है। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हए पैरामेडिकल स्टाफ को भी पीडियाट्रिक प्रशिक्षण दिया गया है।

वेस्ट यपी के सभी जनपदों के चिकित्सकों को सेक्टर-39 में स्थित अस्पताल में स्किल लैब में ट्रेनिंग दिया गया है। इससे बच्चों के इलाज में मदद मिलती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक हजार की जनसंख्या पर एक डॉक्टर जरूरी है। गौतमबुद्ध नगर में करीब 24 लाख निवासी हैं।



संभावित थर्ड वेव को देखते हुए सभी डॉक्टर को पीडियाट्कि प्रशिक्षण दिया गया है। जरूरत पडने पर कछ

चिकित्सक शासन से मांगे जाएगें। बच्चों के इलाज के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार

> -डॉ स्नील कुमार शर्मा सीएमओ गौतमबुद्ध नगर

18,750 निवासियों पर एक डॉक्टर तैनात है। आबादी के लिहाज से जनपद में 2,400 डॉक्टर होने चाहिए। जबिक गौतमबुद्ध नगर जिला अस्पताल, सभी सीएचसी व पीएचसी में सिर्फ 128 चिकित्सक तैनात हैं। इनमें से 40 विशेषज्ञ हैं।

अन्य 88 डॉक्टर एमबीबीएस अब तक के शोध के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने का देखते हुए 360 बेड का पीडियट्रिक

में चिकित्सक सची

फिजीशियन:	00
सर्जनः	03
रेडियोलाजिस्ट:	02
गॉयनोलाजिस्ट:	05
आई सर्जनः	01
ईएनटी:	01
एनेस्थेटिस्ट:	01
पीडियाट्रिशियनः	01
फार्मासिस्टः	32
डेंटल हाइजीनिस्ट:	05
एक्सरे टेक्नीशियन:	05
लैब टेक्नीशियन:	06
हेल्थ विजीटरः	22
स्टाफ नर्स:	14
एएनएम:	58
	-

खतरा ज्यादा है। जिला प्रशासन ने आइसीयू तैयार करा दिया है। मगर कोरोना महामारी तीसरी लहर को बच्चों के इलाज के लिए यहां महज दो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। जबकि

स्वास्थ्य सुविधाएं पर नजर जिला अस्पताल सीएचसी 06 पीएचसी

जिला अस्पताल में चिकित्सकों की जरूरत

30

तैनात

02



आंकड़ों के मुताबिक जिले में 18 वर्ष तक के बच्चों की आबादी

जिले में बढ़ेंगे सर्किल रेट, मेट्रो और एक्सप्रेसवे से सटे प्लॉट के लिए देना होगा लोकेशन चार्ज



पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने जिले में सर्किल रेट बढाने का फैसला लिया है। इसके तहत नोएडा के 20 आवासीय सेक्टरों की भूखंड दरों और 8 औद्योगिक संस्थागत भुखंडों के सर्किल रेट में 10 से 70 प्रतिशत तक की बढोत्तरी हुई है। अब सबसे महंगे सेक्टर-14ए, 15, और 44, व बी ब्लॉकद्ध में सर्किल रेट 1 लाख 94 हजार 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन व नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टरों में वहां के सर्किल रेट के अलावा लोकेशन चार्ज के रूप में अतिरिक्त शुल्क के हिसाब से रजिस्ट्री करानी होगा।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवासीय सेक्टरों की भूखंड दरों में करीब 25 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है। यहां सबसे ज्यादा जेपी ग्रीन्स में न्युनतम शुल्क 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। जोन ए के चार हजार वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भुखंड के सर्किल रेट में करीब 45 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है।

यमुना क्षेत्र में सेक्टर-1 से 18 तक, 20, 21, 23, 23ए, 23 बी, 23 सी, 24, 24ए, 27, 28, 29, 33, 34 व 35 के आवासीय सेक्टरों में भूखंड के सर्किल रेट 17800 रुपये प्रति वर्ग

मेट्रो स्टेशनों के पास ये हैं सेक्टर .

सेक्टर.2, 3, 15, 16, 18, 27, 32, 34, 36, 37, 38ए, 39, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 92, 95, 101, 102, 137

नोएडा-ग्रेनी एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर

सेक्टर-44, 91, 93ए, 93 बी, 94, 96, 97, 98, 105, 108, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 135, 136, 142, 143 बी, 144, 145, 146, 147, 148, 148ए, 150, 152, 153, 154, 157, 159, 161, 163, 166, 167 व 168

मीटर प्रस्तावित किए गए हैं। व्यावसायिक भूखंड के सर्किल रेट 43500 से बढ़ाकर 46000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किए गए हैं।

औद्योगिक, संस्थागत व आईटी-आईटीईएस के भूखंडों के सर्किल रेट में कोई बढोत्तरी नहीं की गई है। इसके अलावा आवासीय भुखंड के सामने ग्रीन बेल्ट होने पर भी पांच प्रतिशत अतिरिक्त सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री करानी होगी। सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची में ये प्रावधान किए गए हैं।

१८ अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण होगा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति की रजिस्ट्री कराना महंगा होगा। तीनों क्षेत्र आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, आईटी-आईटीईएस श्रेणी की संपत्तियों के सर्किल रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इसको लेकर जिला प्रशासन ने प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची जारी कर दी है। लोग 16 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके

2.५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा

निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 18 मीटर से अधिक व 30 मीटर तक चौडी सडक पर स्थित औद्योगिक भुखंड की रजिस्ट्री कराने के लिए 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सेक्टर में औद्योगिक भुखंड का सर्किल रेट 40 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है और ये भुखंड 18 मीटर से अधिक चौडी सड़क पर है। ऐसे में इस भूखंड के क्षेत्रफ्ल के सर्किल रेट का मूल्याकन 2.5 फीसदी के हिसाब से एक हजार रुपये जोड़ते हुए 41 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होगा। 30 मीटर से अधिक चौडी सडक पर स्थित भुखंड की रजिस्ट्री कराते समय 5 प्रतिशत अतिरिक्त. पार्क फेसिंग व ग्रीन बेल्ट होने पर 2.5 और कार्नर का औद्योगिक भूखंड होने पर 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त शल्क के हिसाब से सर्किल रेट की गणना की जाएगी।

बाद 18 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण कर फाइनल सर्किल रेट जारी कर दिए जाएंगे।

खाली प्लॉट का चंद मिनटों में पता लगेगा

🗕 तकनीक का लाभ उटाकर नोएडा अथॉरिटी करोडों रुपये कमाएगी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा अथॉरिटी की करोडों रुपए की जमीन शहर में जहां-तहां पड़ी हुई है। जिसके बारे में प्राधिकरण के कर्मचारी वर्षों से पता लगाने में नाकामयाब रहे हैं। अब अथॉरिटी की मख्य कार्यपालक अधिकारी ऋत महेश्वरी ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है।

चंद मिनटों में प्राधिकरण को पता लग जाएगा कि शहर में कहां.कहां खाली प्लॉट पड़े हैं। अथॉरिटी इस जमीन की नीलामी करेगी। उम्मीद है कि इस नीलामी से

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचना दी जाती **र्वे** कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी

राजन कुमार का आईडी कार्ड, जिसका आईडी

कार्ड नंबर 2111906 है, 28 जुलाई, 2021 को गुम हो गया तथा/अथवा खो गया है। जिस भी व्यक्ति उक्त आईडी कार्ड मिले, तो उस

व्यक्ति से उक्त आईडी कार्ड, मैनेजर डेट

सर्विसेज ऐंड मैनेजमेंट्स युप, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एस.डी टावर, रोहिणी,

सेक्टर-८, नई दिल्ली-110085 को लौटाने का अनुरोध किया जाता है। अतएव आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के समी

ग्राहकों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता

है कि उक्त आईडी कार्ड नेंबर 2111906 के

घारक किसी अनधिकृत व्यक्ति को कोई मुगतान

नहीं करें। कृपया आगे सूचित हों कि उक्त आईडी कार्ड घारक किसी भी व्यक्ति को कोई

मुगतान करने वाला व्यक्ति ऐसा अपनी स्वय की लागत, जोखिम और खतरे पर ऐसा करेगा

तथा आईसीआईसीआई बैंक किसी भी

मुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा तथा/अथवा

वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

तिथि : 05-08-2021

जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान : दिल्ली



अरबों रुपए हासिल होंगे। नोएडा अथॉरिटी जियोग्राफिकल

इन्फ ॉर्मेशन सिस्टम के जरिए सर्वे करवाएगी। इससे शहर में खाली भखंड का पता लगेगा। इसके बाद प्राधिकरण के कर्मचारी मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। यह जिम्मेदारी वर्क सर्किलए नियोजन और आवासीय भूखंड विभाग को सौंपी गई है।

यह सर्वे अगले एक सप्ताह में मिले कराया, जाएगा। इन खाली

कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड

(सीआईएन : एल७०१०७डीएल१९८०पीएलसी१६९३१८)

. रंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9—10,

बहाद्रशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फोन नंबर : 7303495374,

सूचना सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित

विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार,

13 अगस्त 2021 को इसके पंजीकत कार्यालय में

2021 को समाप्त पहली तिमाही हेतु कम्पनी

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित. अनमोदि

और अभिलेखबद्ध किए जाएंगे। उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट

www.camaccommercial.com पर भी उपलब

स्थान : नई दिल्ली तिथ्य : 04-08-2021

तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भेजी

वास्ते कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड

🛮 जेएम फाइनैंशियल

हस्ता./

मोनीशा स

डीआईएन-0750364

भखंडों को योजना में शामिल करके लोगों को आवंटित किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बैठक में यह आदेश दिया है। सीईओ ने निर्देश दिए कि आवासीय भूखंड योजना.2011 के अंतर्गत सफ ल आवेदकों और पांच प्रतिशत आबादी के जनवरी-2021 से अब तक नियोजित भुखंडों के अवशेष आवंटन पत्र एक सप्ताह में जारी कर दिए जाएं।

ऋत् महेश्वरी ने कहा, पांच प्रतिशत आबादी मामले में भूलेख विभाग और वर्क सर्किल से साइट प्लान प्राप्त कर लिए जाएं। आवासीय भूखंडों के 40 लाख रुपए से अधिक धनराशि के डिफाल्टरों के भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि इस श्रेणी के बकाएदारों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

विकास कार्यों का पिटारा, ९४ करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास



डॉक्टर की संख्या

00

02

02

03

02

01

01

01

02

08

01

01

03

फि जीशियन:

आई सर्जन:

पैथोलाजिस्ट:

सर्जन:

रेदियोलाजिस्ट

स्किन स्पेशलिस्ट:

डेंटल सर्जन:

आर्थो सर्जन:

एनेस्थेटिस्ट:

एमबीबीएस:

गॉयनोलाजिस्ट:

चिकित्याधिकारी •

चीफ फर्मासिस्ट:

लैब टेक्नीशियन:

पीडियद्रिशियन:

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन तथा साथ में मेयर आशा शर्मा व अन्य पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

जिले में विकास कार्यों की सौगात का पिटारा लगातार खुलता जा रहा है।

यपी के नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन ने हिंदी भवन में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में लगभग 94 करोड 43 लाख रुपए की विकास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर 68

किया गया और तीन विकास कार्यों का शिलान्यास भी गया। महामाया स्टेडियम के पास सिटी फॉरेस्ट बनाने के लिए मंत्री ने शिलान्यास किया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन

ने कहा कि यूपी सरकार सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार विकास कार्यों को अंजाम दे रही है। इस मौके पर मेयर आशा शर्मा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल विधायक सनील शर्मा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। इससे पूर्व नगर विकास मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्रणा भी की।

पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड

इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली

गाजियाबाद। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच आमने-सामने की मुठभेड जारी है। अभी तक 72 घंटे में आधा दर्जन से भी अधिक मुठभेड़ों में कई बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो चुके हैं।

इसी कडी में साहिबाबाद और इंदिरापुरम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मोहन नगर के पास एक और बदमाशों को मुठभेड़ में गोली लगी जबिक उसका एक अन्य साथी भागने में कामयाब हो गया। बदमाश की पहचान चंदन के रूप में हुई है। इसके खिलाफ दिल्ली और यपी के विभिन्न थानों के रोज नामचे में दर्जनों अपराधिक मामले दर्ज है । इंदिरापुरम के क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि मोहन नगर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार दो बदमाशों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी।

एक दिन में लगे रिकॉर्ड 42 हजार टीके, जारी रहेगा अभियानः डीएम दी गई। जिलाधिकारी सुहास एलवाई

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

उत्तर प्रदेश में टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए 3 अगस्त महाअभियान चलाया गया था। इसके तहत गौतमबुद्ध नगर में 1 दिन में रिकॉर्ड 41 हजार से ज्यादा टीके लगे।

इसके साथ ही जनपद में सुस्त पड़े वैक्सीनेशन के अभियान को रफ्तार मिला है। डीएम सुहास एलवाई सभी विभागों और मिशन से जुड़े अफ्सरों.कर्मचारियों तथा अन्य सभी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इसी रफ्तार से कोरोना वायरस का टीकाकरण जनपद में जारी रहे। मंगलवार को जनपद में 204 वैक्सीनेशन सेंटर पर ख़ुराक दी गई। बीते दिन अभियान के तहत 42316 लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन

ने राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सफ्ल बनाने के उद्देश्य से जनपद के सभी प्रशासनिक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को सेंटर का नोडल अधिकारी बनात हुए ड्यूटी लगाई गई थी।

सभी प्रशासनिक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने.अपने क्षेत्र में नोडल अफ्सर के रूप में कार्य हुए राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों के कार्य की सराहना की। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने इस संबंध में जानकारी दी।

ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से महिला की मौत, केस दर्ज

कस्बे में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल इलाज के दौरान मौत हो गई।

महिला की मौत की सूचना मिलते ही बडी संख्या में गुस्सा, परिजन अस्पताल पहुंच गए और दो घंटे तक जमकर हंगामा किया।

नोएडा। कोतवाली रबूपुरा क्षेत्र के समझा बुझाकर मामला शांत कराया तथा पति की तहरीर पर दो में भर्ती महिला की मंगलवार सुबह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

मतका के पति प्रदीप कुमार का आरोप है कि सोमवार रात उसकी पत्नी की मौत हो गई थी लेकिन अस्पताल ने पैसे वसलने के लिए दर्द कम न होने और रक्तस्राव होने के सुचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को मंगलवार सुबह उसकी पत्नी की मौत

की सूचना उसको दी। पुलिस ने बताया की आछेपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार की शादी पूनम से वर्ष 2012 में हुई थी।

पनम के गर्भाशय बच्चेदानी में पीडा होने पर एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने गर्भाशय में गांठ होने और उसका ऑपरेशन करने की बात कही। आरोप है कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे गर्भाशय का आपरेशन किया गया लेकिन उसके बाद भी महिला का चलते महिला की मौत हो गई।

जमीन नहीं देने वाले किसानों से होगी बातचीतः जिलाधिकारी

रैपिड रेल परियोजना का कार्य निर्धारित समय सीमा में हो

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

रैपिड रेल परियोजना के निर्माण में जमीन संबंधी आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए डीएम और रैपिड रेल अधिकारियों के मध्य जिला मुख्यालय पर मैराथन बैठक आहूत हुई।

बैठक में रैपिड रेल परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे लाइन के आसपास कुछ जमीन ऐसी है जिसे अभी तक अधिग्रहण नहीं किया जा सका है और किसान समस्या पैदा कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसानों के साथ वार्ता कर इस



मामले को सुलझा दिया जाएगा, लेकिन परियोजना का कार्य तय अवधि के बीच पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी इस परियोजना पर काम पुरा होगा मेरठ गाजियाबाद और दिल्ली के यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी। निराकरण समय अनुसार हो सके।

जिला अधिकारी आरके सिंह ने रैपिड रेल अधिकारियों को बताया कि परियोजना से संबंधित जो कोई भी परेशानी आ रही है प्रशासन को तुरंत अवगत कराया जाए ताकि उसका

गुमशुदा की तलाश



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में प्रदर्शित) नामः अमर गुप्ता पुत्रः बद्री प्रसाद निवासी: मकान न. 34, अनाकली गली 43ए दिनांक 13.07.2021 थाना जगतपुरी, दिल्ली

अमर गुप्ता

उम्रः 38 वर्ष, कदः 5'2" रंगः सांवला, चेहराः

यदि किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

थाना जगतपुरी, दिल्ली 011-24368638,24368641 शाहदरा जिला, दिल्ली

सीआईएन : एल65929डीएल1947पीएलसी001240 मेलः pnbfinanceindustries@gmail.com पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठि विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2021 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के पृथक्कृत और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे। उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट

www.pnbfinanceandindustries.com प भी उपलब्ध है तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंड लिमिटेड को भेजी जा चुकी है। बोर्ड के आदेश दार

वास्ते पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (निदेशक एवं कम्पनी सचिव) (डीआईएन-03120958 एवं सदस्यता सं. : ए18585 स्थान : नई दिल्ली

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना								
अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए. की	बकाया राशि				
क्र.	(Ų)		तारीख (सी)	(転.) (륔)				
1	कर्ज खाता क्र.HHLROH00389053	संपत्ति नं.JJR/W01/0661, खेवत नं.	31.03.2021	₹.28,01,900.70 /-				
	1. सुभाष चंदर	3819/3578, खाता नं.4333, किला		(रूपये अठ्ठाईस लाख एक हजार				
	2. सरोज	नं.34/2, तडाडी किला नं.34/2, मौजा		नौ सौ और सत्तर पैसे मात्र)				
		नगर पाइलिका, झज्जर -124100,		31.03.2021 के अनुसार				
		हरियाणा						

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चय में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पनर्भगतान में लगातार चक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडे

के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख़ के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप पुत्येक उधार लेनेवालो को अधिनयम क् धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी क गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भूगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार ,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सरक्षित आस्तियों की विक्री के लिए सचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों

स्थान:झज्जर (हरियाणा)

प्राधिकृत अधिकारी

अरोड़ी विभा रूप्या आदागराग इंडिया (आ.) गराम्बर (गरास्टर) मा वर्षण अर्थान्य वर्षण अर्थान्य वर्षण अर्थान्य वर्षण की 24—11-2014 तक कांग्या राशि के .390,193,021.39/— (रूपए उन्तालीस करोड़ के लाख तिरानवे हजार इंक्कीस तथा पैसे उन्तालीस मात्र) की वसूली के लिए इस सूचना की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर "जैसी है जहां है", जैसी है जो है भी है वहां है* आधार पर प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बेची जाएगी, जिसका प्रतिफल नीचे तालिका वर्णित सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होगा। अवल सम्पत्ति का वर्णन सुरक्षित मूल्य (रू. में) सम्पत्ति कुल भूमि परिमाप 11,374 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1186 र ₹ 4.10.00.000 /-

जेएम फाइनैंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड पूर्वतः जेएग फाइनैशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रसिः सीआईएन : U67190MH2007PLC174287 पंजी. कार्यालय : 7वां ततः, सिनजी, ज्यापसाहेब मराठे मार्गं, प्रमादेवी, मुंबई—400025 प्राधिकृत अधिकारी : वैमव शेट्टी गोबाइल: 9820387460

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिमूति हिंत (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना एतदृद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना

जाती है कि जेएमएफएआरसी – कर्नाटक बैंक दिसम्बर 2014 – ट्रस्ट ("जेएमएफएआरसी"

("प्रत्यामूत लेनदार") के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत जेएम फाइनैंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पन लिमिटेड ('जेएमएफएआरसी') के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिव

कब्जा प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, मैसर्स रघु प्राङ् मेटल लिमिटेड ("कर्जदार") तथा श्री मनोज सचदेवा, श्री दलजीत सिंह, श्री राकेश गुप्ता, श्र

अरोड़ा तथा ऐम्पी ऑटोमेशन इंडिया (प्रा.) लिमिटेड ('गारंटर') की तरफ प्रत्यामूत लेनदार

श्री संजीव गुप्ता, सुश्री कुलदीप कौर, श्रीमती शिल्पा सचदेवा, श्रीमती नीर

1191, ग्राम खेडा, परगना डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश लाख मात्र) रात ऋणभार, यदि कोई: जेएमएफएआरसी को ज्ञात नही

इस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी वास्ते जेएम फाइनैशियल असेट रिकंस्ट्रवशन कम्पनी लिमिटेड जेएमएफएआरसी – कर्नाटक बैंक दिसम्बर 2014 – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यस्त तिथ्वि : 05-08-2021 स्थान : दिल्ली

नं. 1, जगतपुरी दिल्ली जो दिनांक 05.07.2021 से अपने घर से लापता है। इस संदर्भ में डी.डी. सं. में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार

लम्बा, शरीरः पतला, कपडेः हरे रंग की टी-शर्ट एवं काले रंग की पैन्ट तथा पैरों मे आसमानी रंग की चप्पल पहने हुये है।

-मेल आईडी—<u>cic@cbi.gov.in</u> वेबसाईट <u>http://cbi.nic.in</u> थानाध्यक्ष

फैक्स नं.:011-24368639 DP/519/SHD/2021 दूरभाष सं. 011-22420362-63, 7065036022

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित हैं।

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाषः 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादकः चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादकः प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।